

अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा 'माटी पूजन दिवस'

चर्चा में क्यों?

27 अप्रैल, 2022 को राज्य शासन द्वारा राज्य में अक्षय तृतीया को 'माटी पूजन दिवस' के रूप में मनाए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा का परपालन करते हुए नरिदेश जारी कर दिये गए।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये अनेक पहल कर रही है। इस कड़ी में मट्टी की उर्वरा शक्ति के पुनर्जीवन के लिये रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के स्थान पर वर्मी कंपोस्ट के उपयोग के साथ ही गो-मूत्र एवं अन्य जैविक पदार्थों के उपयोग को बढ़े पैमाने पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य किया जा रहा है।
- इसी उद्देश्य को ही आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष 3 मई को अक्षय तृतीया पर राज्य में 'माटी पूजन दिवस' मनाने का महा अभियान प्रारंभ किया जा रहा है।
- आयोजन को लेकर जारी नरिदेश के अनुसार इस अवसर पर राजधानी रायपुर में राज्यस्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं सभी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं ज़िला पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर परंपरागत रूप से माटी पूजन किया जाएगा।
- माटी पूजन कार्यक्रम में धरती माता की रक्षा की शपथ ली जाएगी और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया जाएगा।
- इन कार्यक्रमों में ज़िलों के प्रभारी मंत्री, विधायकगण, त्रिसितरीय पंचायतों के जनप्रतिनिधिसहित कृषक एवं नागरिक शामिल होंगे। पर्यावरण से जुड़े इस महत्त्वपूर्ण आयोजन में सामाजिक संगठनों तथा विद्यालय व महाविद्यालय के विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।
- गौरतलब है कि अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में 'अकृती' के नाम से भी जाना जाता है।